

Psa

Chapter 28

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

תְּחַשָּׁה פֶּן-מִמְּנִי תִחַרְשׁ אֶל-צוּרִי אֶקְרָא וַיְהִיָּה לְאִיָּה לְדָוָד 1
चुप-रहे-तू कहीं-से-मुझ चुप-रह मत-चट्टान-मेरी पुकारता-हूँ-मैं यहोवा की-ओर-तेरी ले-दाऊद-का
H2814 H6435 H0408 H6697 H7121 H3068 H0413 H1732

בֹּרֵךְ יִרְדְּי עִם-וְנִמְשָׁלְתִי מִמְּנִי
गड्डे-में उतरनेवालों-जैसे- और-हो-जाऊँ-मैं से-मुझ
H3381

हे यहोवा, तू मेरी चट्टान है, मैं तुझको सहायता पाने को पुकार रहा हूँ। मेरी प्रार्थनाओं से अपने कान मत मूँद, यदि तू मेरी सहायता की पुकार का उत्तर नहीं देगा, तो लोग मुझे कब्र में मरा हुआ जैसा समझेंगे।

דְּבִיר אֶל-יָדַי בְּנִשְׂאֵי אֱלֹהִי בְּשֹׁעֵי תַחֲנוּנֵי קוֹל שְׁמַע 2
पवित्रस्थान की-ओर-हाथ-मेरे जब-उठाता-हूँ-मैं की-ओर-तेरी जब-चिल्लाता-हूँ-मैं विनतियों-मेरी-की स्वर सुन
H1687 H0413 H3027 H5375 H0413 H7768 H8469 H8085

קִדְשֵׁיךָ
पवित्र-तेरे-के
H6944

हे यहोवा, तेरे पवित्र तम्बू की ओर मैं अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ। जब मैं तुझे पुकारूँ, तू मेरी सुन और तू मुझ पर अपनी करुणा दिखा।

עִם-שְׁלוֹם דְּבָרֵי הַבְּרִי אֲנִי פְעֻלָּי וְעִם-רְשָׁעִים אֶל-תַּמְשִׁכְנֵי עִם- 3
से-शान्ति बोलनेवाले अधर्म करनेवालों-और-के-साथ-दुष्टों के-साथ-घसीट-मुझे मत-
H7965 H1696 H0205 H6466 H7563 H4900 H0408

בְּלִבְבָם: אֲרַעָה רַעִיָּה
में-हृदयों-उनके परन्तु-बुराई-है पड़ोसियों-अपने
H3824 H7453

हे यहोवा, मुझे उन बुरे व्यक्तियों की तरह मत सोच जो बुरे काम करते हैं। जो अपने पड़ोसियों से "सलाम" (शांति) करते हैं, किन्तु अपने हृदय में अपने पड़ोसियों के बारे में कुचक्र सोचते हैं।

תָּן לְרֵיָּהֶם כְּמַעֲשֵׂה מַעֲלֵיָּהֶם וּכְרַע כְּפַעֲלָם לָהֶם תֵּן- 4
दे-हाथों-उनके-के अनुसार-काम-के कर्मों-उनके-के और-अनुसार-बुराई-के अनुसार-कामों-उनके-के उन्हें दे-
H5414 H3027 H4639 H4611 H7455 H6467 H1992 H5414

לָהֶם: נְמוּלָם הַשָּׁב לָהֶם
को-उन बदला-उनका लौटा-दे उन्हें
H1992 H1576 H7725 H1992

हे यहोवा, वे व्यक्ति अन्य लोगों का बुरा करते हैं। सो तू उनके साथ बुरी घटनाएँ घटा। उन दुर्जनों को तू वैसे दण्ड दे जैसे उन्हें देना चाहिए।

יִהְיֶהֱגִירָה יָדָיו מִעֲשֵׂה וְאֶל-יְהוָה פְּעֻלָּתוֹ אֶל-יָבִינוּ לֹא כִי 5
गिरा-देगा-उन्हें-वह हाथों-उसके-के काम और-न-को-यहोवा-के कामों को-समझते-हैं-वे नहीं क्योंकि-
H2040 H3027 H4639 H0413 H3068 H6468 H0413 H0995 H3808

יִבְנֶם: וְלֹא
बनाएगा-उन्हें और-नहीं
H1129 H3808

दुर्जन उन उत्तम बातों को जो यहोवा करता नहीं समझते। वे परमेश्वर के उत्तम कर्मों को नहीं देखते। वे उसकी भलाई को नहीं समझते। वे तो केवल किसी का नाश करने का यत्न करते हैं।

6
 תַּחֲנוּנֵי : קוֹל שָׁמַע כִּי יְהוָה בָּרָךְ
 विनतियों-मेरी-की स्वर सुना-है-उसने क्योंकि- यहोवा धन्य-हो
[H8469](#) [H8085](#) [H3068](#) [H1288](#)

यहोवा की स्तुति करो! उसने मुझ पर करुणा करने की विनती सुनी।

7
 וַיִּעֲלֶיז וַיִּנְעֲזָרְתִּי לִבִּי בָטָח בּוֹ וּמִנְנִי עָזִי יְהוָה
 और-आनन्दित-हुआ और-सहायता-पाई-मैंने हृदय-मेरे-ने भरोसा-रखा में-उस और-ढाल-मेरी बल-मेरा यहोवा
[H5937](#) [H5826](#) [H0982](#) [H4043](#) [H5797](#) [H3068](#)

אֶהְרֹגְנִי : וּמִשִּׁירֵי לִבִּי
 स्तुति-करूँगा-उसकी-मैं और-से-गीत-मेरे हृदय-मेरा
[H3034](#)

यहोवा मेरी शक्ति है, वह मेरी ढाल है। मुझे उसका भरोसा था। उसने मेरी सहायता की। मैं अति प्रसन्न हूँ, और उसके प्रशंसा के गीत गाता हूँ।

8
 הוּא : מִשִּׁירֵי יְשׁוּעוֹת וּמִעֲזוֹ לִבּוֹ עָזִי יְהוָה
 है-वह अभिषिक्त-अपने-के उद्धारों और-गढ़- उनका-है बल- यहोवा
[H1931](#) [H4899](#) [H3444](#) [H4581](#) [H5797](#) [H3068](#)

यहोवा अपने चुने राजा की रक्षा करता है। वह उसे हर पल बचाता है। यहोवा ही उसका बल है।

9
 וְרַעַם נִחַלְתִּי אֶת-יְבָרְךָ עַמְּךָ אֶת-הוֹשִׁיעָה
 और-चरवाही-कर-उनकी निज-भाग-अपने-को - और-आशीष-दे प्रजा-अपनी-को - बचा-
[H5159](#) [H0853](#) [H1288](#) [H0853](#) [H3467](#)

הָעוֹלָם : עַד-וְנִשְׁאַם
 सदा-के-लिए तक- और-उठा-उन्हें
[H5769](#) [H5704](#) [H5375](#)

हे परमेश्वर, अपने लोगों की रक्षा कर। जो तेरे हैं उनको आशीष दे। उनको मार्ग दिखा और सदा सर्वदा उनका उत्थान कर।